

# प्रेस विज्ञप्ति थाना गीडा दिनांक 05-02-2021

## **चोरी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद के अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्ग निर्देशन व सहायक पुलिस अधीक्षक/सीओ कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में मुझ प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र चौधरी मय हमराहियान द्वारा 01 नफर अभियुक्त दिनेश कुमार गौड़ पुत्र प्रेमशंकर गौड़ निवासी भरवल थाना गीडा जनपद गोरखपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 27/2021 धारा 380/411 आईपीसी को गिरफ्तार किया गया।

### **घटना का संक्षिप्त विवरण**

आज दिनांक 05.02.2021 को मुझ प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र चौधरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर मय हमराही के अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे अभियान व देखभाल क्षेत्र, पेन्डिंग विवेचना व तलाश वांछित वारण्टी तथा बैंक चेकिंग में मामू थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 27/2021 धारा 380/411 आईपीसी से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश कुमार गौड़ पुत्र प्रेमशंकर गौड़ निवासी भरवल थाना गीडा जनपद गोरखपुर ग्राम जुड़ियान, आईजीएल होते हुए दाना पानी होटल के रास्ते से सहजनवां की तरफ जा रहा है मुखबिर के इस सूचना पर उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र चौधरी मय हमराहियान के दाना पानी होटल चौराहे पर पहुंच कर आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे कि तभी आते हुए एक स्कूटी सवार व्यक्ति की तरफ इशारा करके मुखबिर खास हट बढ़ गया कि स्कूटी सवार व्यक्ति दाना पानी से 25 मीटर पहले ही हम पुलिस वालो को देखकर मुड़कर भागना चाहा कि हम पुलिस वालो द्वारा एकबारगी दबीश देकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त के जामा तलाशी से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 23 अदद हवाई चप्पल डाई कटर (अनुमानित कीमत लगभग 50000/- रूपये) बरामद किया गया।

### **गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम:-**

दिनेश कुमार गौड़ पुत्र प्रेमशंकर गौड़ निवासी भरवल थाना गीडा जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय**

दाना पानी होटल चौराहा, दिनांक 05.02.2021 समय 11.30 बजे।

### **बरामदगी:-**

मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 23 अदद हवाई चप्पल डाई कटर (अनुमानित कीमत लगभग 50000/- रूपये)

### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र चौधरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. हे0कां0 सत्येन्द्र प्रजापति थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. कां0 पवनेश पाण्डेय थाना गीडा जनपद गोरखपुर
4. कां0 रामनारायन शुक्ला थाना गीडा जनपद गोरखपुर